



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 67]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, फरवरी 10, 2011/माघ 21, 1932

No. 67]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 10, 2011/MAGHA 21, 1932

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 2011

सा.का.नि. 78(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 610ख के साथ पठित धारा 642 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (केन्द्रीय सरकार) साधारण नियम और प्ररूप 1956 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (केन्द्रीय सरकार) साधारण नियम और प्ररूप (संशोधन) नियम, 2011 है।
(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (केन्द्रीय सरकार) साधारण नियम और प्ररूप 1956 के प्ररूप 2 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :--

| | |
|---|-----------------------|
| प्ररूप 2 (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 75(1) के अनुसरण में) | आबंटन का विवरण |
|---|-----------------------|

टिप्पण -- * चिन्हित सभी स्थानों को अनिवार्य रूप से भरें।

- 1.(क) * कंपनी की निगमित पहचान संख्या (सीआईएन)
- (ख) कंपनी की वैश्विक अवस्थिति संख्यांक (जीएलएन)
- 2(क). कंपनी का नाम
- (ख) कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता

पहले से
भरा

(ग) *कंपनी का ई-मेल पहचान

3. नकद में संदेय आबंटित शेयर

आबंटन की संख्या

आबंटन की तारीख

(तारीख/मास/वर्ष)

| शेयरों के प्रकार | अधिमानी | साधारण |
|--|---------|--------|
| शेयरों के निबंधन और शर्तें, मताधिकार आदि के संबंध में संक्षिप्त विशिष्टियां | | |
| आबंटित शेयरों की संख्या | | |
| प्रति शेयर अभिहित रकम (रुपए में) | | |
| कुल अभिहित रकम (रुपए में) | | |
| आवेदन पर प्रतिशेयर संदत्त रकम (प्रीमियम को छोड़कर) (रुपए में) | | |
| आवेदन पर प्रतिशेयर संदत्त रकम (प्रीमियम को छोड़कर) (रुपए में) | | |
| आबंटन पर प्रति शेयर शोध्य और संदेय रकम (प्रीमियम को छोड़कर) (रुपए में) | | |
| आबंटन पर संदत्त कुल रकम (प्रीमियम को छोड़कर) (रुपए में) | | |
| प्रति शेयर शोध्य और संदेय प्रीमियम की रकम (यदि कोई हो) (रुपए में) | | |
| शोध्य और संदेय कुल प्रीमियम की रकम (यदि कोई हो) (रुपए में) | | |
| प्रति शेयर संदत्त प्रीमियम की रकम (यदि कोई हो) | | |
| संदत्त कुल प्रीमियम की रकम (यदि कोई हो) (रुपए में) | | |
| प्रतिशेयर छूट की रकम (यदि कोई हो) (रुपए में) | | |
| छूट की कुल रकम (यदि कोई हो) (रुपए में) | | |
| प्रतिशेयर मांग पर संदत्त की जाने वाली रकम (यदि कोई हो) (प्रीमियम को छोड़कर) (रुपए में) | | |
| प्रतिशेयर मांग पर संदत्त की जाने वाली कुल रकम (यदि कोई हो) (प्रीमियम को छोड़कर) (रुपए में) | | |

4. नकद से भिन्न प्रतिफल के लिए आबंटित शेयर
आबंटन की संख्या

आबंटन की तारीख

(तारीख/मास/वर्ष)

| शेयरों के प्रकार | अधिमानी | साधारण |
|--|---------|--------|
| शेयरों के निबंधन और शर्तें, मताधिकार आदि के संबंध में संक्षिप्त विशिष्टियां | | |
| आबंटित शेयरों की संख्या | | |
| प्रति शेयर अभिहित रकम (रुपए में) | | |
| कुल अभिहित रकम (रुपए में) | | |
| प्रत्येक शेयर पर समादत्त समझी गई रकम (रुपए में) | | |
| प्रतिशेयर प्रीमियम की रकम (रुपए में) | | |
| कुल प्रीमियम रकम (रुपए में) | | |
| प्रति शेयर छूट की रकम (यदि कोई हो) (रुपए में) | | |
| कुल छूट की रकम (यदि कोई हो) (रुपए में) | | |
| प्रतिफल जिसके लिए ऐसे शेयरों का आबंटन किया गया है (क) अर्जित संपत्ति और आस्तियां विवरण | | |
| रकम (रुपए में) | | |
| (ख) गुडविल विवरण | | |
| रकम (रुपए में) | | |
| (ग) सेवाएं (सेवाओं की प्रकृति बताएं) विवरण | | |
| रकम (रुपय में) | | |
| (घ) अन्य मदें (विनिर्दिष्ट करें) विवरण | | |
| रकम (रुपय में) | | |
| क्या नकद से भिन्न प्रतिफल के लिए शेयरों के आबंटन हेतु कोई करार या संविदा लिखित में निष्पादित की गई है हां नहीं | | |

5. जारी बोनस अंश (शेयर)

(क) आबंटन की तारीख

(तारीख/मास/वर्ष)

(ख) बोनस अंशों (शेयर) की संख्या

(ग) प्रति शेयर अभिहित रकम

(रुपये में)

(घ) प्रति शेयर समादत्त के रूप में समझी गई रकम

6. उपरोक्त आबंटन (आबंटनों) को विचार में लेने के पश्चात् कंपनी की पूंजी की संरचना

(क) * कंपनी की प्राधिकृत पूंजी

(रुपये में)

प्राधिकृत पूंजी के अवशिष्ट

साधारण शेयरों की कुल रकम

(रुपये में)

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------|
| *साधारण शेयरों की संख्या | | |
| प्रति साधारण शेयर अभिहित रकम | | |
| *अधिमानी शेयरों की संख्या | अधिमानी शेयरों की कुल रकम | (रुपये में) |
| प्रति अधिमानी शेयर की अभिहित रकम | | |
| अवर्गीकृत शेयरों की संख्या | अवर्गीकृत शेयरों की कुल रकम | (रुपये में) |
| | (रुपये में) | |

(ख) कंपनी की पुरोधृत पूंजी

| | | |
|----------------------------------|---------------------------|--------------|
| जारी पूंजी का अवशिष्ट | | |
| *साधारण शेयरों की संख्या | साधारण शेयरों की कुल रकम | (रुपये में) |
| प्रति साधारण शेयर अभिहित रकम | | |
| *अधिमानी शेयरों की संख्या | अधिमानी शेयरों की कुल रकम | (रुपये में) |
| प्रति अधिमानी शेयर की अभिहित रकम | | |

(ग) *कंपनी की प्रतिश्रुत पूंजी
प्रतिश्रुत पूंजी का अवशिष्ट

| | | |
|----------------------------------|---------------------------|--------------|
| *साधारण शेयरों की संख्या | साधारण शेयरों की कुल रकम | (रुपये में) |
| प्रति साधारण शेयर अभिहित रकम | | |
| *अधिमानी शेयरों की संख्या | अधिमानी शेयरों की कुल रकम | (रुपये में) |
| प्रति अधिमानी शेयर की अभिहित रकम | | |
| (घ) *कंपनी की समादत्त पूंजी | (रुपये में) | |
| समादत्त पूंजी का अवशिष्ट | | |
| *साधारण शेयरों की संख्या | साधारण शेयरों की कुल रकम | (रुपये में) |
| प्रति साधारण शेयर अभिहित रकम | | |
| *अधिमानी शेयरों की संख्या | अधिमानी शेयरों की कुल रकम | (रुपये में) |
| प्रति अधिमानी शेयर की अभिहित रकम | | |

7. (क) धारा 81 के अधीन पुरोधरण को प्राधिकृत करने वाले विशेष संकल्प पारित करने की तारीख (तारीख/मास/वर्ष)

(ख) प्ररूप 23 की सेवा अनुरोध संख्या (एसआर एन)

8. *क्या संलग्नक के रूप में आबंटियों की संपूर्ण सूची संलग्न की गई है। हां..... नहीं.....
यदि नहीं तो सभी आबंटियों के ब्यौरे पृथक रूप से सी.डी. में प्रस्तुत करें।

9. क्या संपत्तियों /अधिकारों और शेयरों की मूल्यांकन रिपोर्ट की प्रति संलग्नक के रूप में संलग्न की गई है। हां..... नहीं.....

संलग्नक

संलग्नकों की सूची

1. बोनस अंश (शेयर) के पुरोधरण को प्राधिकृत करने वाले संलग्नक की प्रति संलग्न
2. *आबंटियों की सूची (प्रत्येक आबंटन की पृथक सूची, रूपविधान के लिए अनुदेश किट के प्रति निर्देश करें) संलग्न
3. छूट पर शेयरों के पुरोधरण के लिए केन्द्रीय सरकार के आदेश की प्रति के साथ संकल्प की कापी संलग्न

- | | |
|--|--------|
| 4. नकद से भिन्न प्रतिफल के लिए शेयरों के आबंटन हेतु संविदा या करार की प्रति, यदि कोई हो। | संलग्न |
| 5. संपत्तियों/अधिकारों और शेयरों के मूल्यांकन रिपोर्ट की प्रति | संलग्न |
| 6. बोर्ड या शेयरधारक के संकल्प की प्रति | संलग्न |
| 7. वैकल्पिक संलग्नक (संलग्नकों), यदि कोई हो। | संलग्न |

सत्यापन

संलग्नक हटाए

इस प्ररूप और उसके संलग्नकों में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सही और पूर्ण है।

मुझे निदेशक बोर्ड संकल्प संख्या.....तारीख.....(तारीख/मास/वर्ष) द्वारा इस प्ररूप को हस्ताक्षर करने और प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

निम्नलिखित द्वारा अंकीय रूप से हस्ताक्षरित किया जाए
कंपनी के प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधक या सचिव

*पदनाम

*निदेशक या प्रबंध निदेशक की निदेशक पहचान
संख्यांक या प्रबंधक की आयकर स्थायी खाता संख्या
(आयकरपैन) या सदस्यता संख्यांक, यदि लागू हो, या
सचिव का आयकर पैन (कंपनी का सचिव जो आई सी
एस आई का सदस्य नहीं है अपना आयकर पैन संख्यांक
उत्कथित करे)

प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंनेके अभिलेख से उपरोक्त
विशिष्टियों (संलग्नक(संलग्नकों)सहित) को सत्यापित कर लिया है और उन्हें सत्य और सही पाया है। मैं यह और
सत्यापित करता हूँ कि सभी अपेक्षित संलग्नक (संलग्नकों) इस प्ररूप के साथ पूर्ण रूप से संलग्न है।

चार्टर्ड एकाउंटेंट (पूर्णकालिक व्यवसाय में) या लागत लेखापाल (पूर्णकालिक व्यवसाय में) या

कंपनी सचिव(पूर्णकालिक व्यवसाय में)

*क्या वह एसोशिएट है या फेलो है एसोशिएट फेलो

*सदस्यता संख्यांक या व्यवसाय प्रमाणपत्र संख्यांक

| | | | |
|------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------|
| उपांतरित करें | प्ररूप जांच करें | पूर्व संवीक्षा | प्रस्तुत करें |
| केवल कार्यालय उपयोग के लिए : | | फाइल किए जाने वाले ब्यौरे लगाएं | |

ई-प्ररूप सेवा अनुरोध संख्यांक (एसआरएन)..... ई-प्ररूप फाइल करने की तारीख (तारीख/मास/वर्ष)

यह ई-प्ररूप रजिस्ट्रीकृत किया जाता है

प्राधिकृत करने वाले अधिकारी के अंकीय हस्ताक्षर प्रस्तुत किए जाने की पुष्टि

हस्ताक्षर की तारीख

(तारीख/मास/वर्ष)

[फा. सं 2/16/2010-सीएल-V]

रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

5039111-2

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th February, 2011

G.S.R. 78(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 642 read with section 610B of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Companies (Central Government's) General Rules and Forms, 1956, namely :-

1. (1) These rules may be called the Companies (Central Government's) General Rules and Forms (Amendment) Rules 2011.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Official Gazette .

2. In the Companies (Central Government's) General Rules and Forms, 1956, for Form 2, the following form shall be substituted , namely :-

FORM No. 2

[Pursuant to section 75(1) of the Companies Act, 1956]

Return of allotment

Note - All fields marked in * are to be mandatorily filled.

1.(a) *Corporate identity number (CIN) of company

Pre-Fill

(b) Global location number (GLN) of company

2.(a) Name of the company

(b) Address of the registered office of the company

(c) *e-mail ID of the company

3. Shares allotted payable in cash

Number of allotments

Date of allotment

(DD/MM/YYYY)

| Kind of Shares | <input type="checkbox"/> Preference | <input type="checkbox"/> Equity |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|
| Brief particulars in respect of terms and conditions, voting rights etc. of shares | | |
| Number of shares allotted | | |
| Nominal amount per share (in Rs.) | | |
| Total nominal amount (in Rs.) | | |
| Amount paid per share on application (excluding premium) (in Rs.) | | |

| | | |
|---|--|--|
| Total amount paid on application (excluding premium) (in Rs.) | | |
| Amount due and payable per share on allotment (excluding premium) (in Rs.) | | |
| Total amount paid on allotment (excluding premium) (in Rs.) | | |
| Premium amount per share due and payable (if any) (in Rs.) | | |
| Total premium amount due and payable (if any) (in Rs.) | | |
| Premium amount paid per share (if any) | | |
| Total premium amount paid (if any) (in Rs.) | | |
| Amount of discount per share (if any) (in Rs.) | | |
| Total discount amount (if any) (in Rs.) | | |
| Amount to be paid on calls per share (if any) (excluding premium) (in Rs.) | | |
| Total amount to be paid on calls (if any) (excluding premium) (in Rs.) | | |

4. Shares allotted for consideration otherwise than in cash

Number of allotments

Date of allotment

(DD/MM/YYYY)

| Kind of shares | | |
|--|--|--|
| Brief particulars in respect of terms and conditions, voting rights etc. of shares | | |
| Number of shares allotted | | |
| Nominal amount per share | | |
| Total nominal amount (in Rs.) | | |
| Amount to be treated as paid-up on each share (in Rs.) | | |
| Premium amount per share (if any) (in Rs.) | | |
| Total premium amount (if any) (in Rs.) | | |
| Amount of discount per share (if any) (in Rs.) | | |
| Total discount amount (if any) (in Rs.) | | |
| The consideration for which such shares have been allotted | | |
| (a) Property and assets acquired | | |
| Description | | |

503 4711-3

| | | |
|--|--|--|
| Amount (in Rs.) | | |
| (b) Goodwill | | |
| Description | | |
| Amount (in Rs.) | | |
| (c) Services (give nature of services) | | |
| Description | | |
| Amount (in Rs.) | | |
| (d) Other items (to be specified) | | |
| Description | | |
| Amount (in Rs.) | | |

Whether an agreement or contract is executed in writing for allotting shares for consideration otherwise than in cash

☐ Yes ☐ No

5. Bonus shares issued

- (a) Date of allotment (DD/MM/YYYY)
- (b) Number of bonus shares
- (c) Nominal amount per share (in Rs.)
- (d) Amount to be treated as paid up per share (in Rs.)

6. Capital structure of the company after taking into consideration the above allotment(s)

- (a)* Authorised capital of the company (in Rs.)

Break up of Authorised capital

- * Number of equity shares Total amount of equity shares (in Rs.)
- Nominal amount per equity share
- * Number of preference shares Total amount of preference shares (in Rs.)
- Nominal amount per preference share
- Number of unclassified shares Total amount of unclassified shares (in Rs.)

- (b) Issued capital of the company (in Rs.)

Break up of Issued capital

- * Number of equity shares Total amount of equity shares (in Rs.)
- Nominal amount per equity share
- * Number of preference shares Total amount of preference shares (in Rs.)
- Nominal amount per preference share

(c)*Subscribed capital of the company (in Rs.)

Break up of Subscribed capital

* Number of equity shares

Total amount of equity shares (in Rs.)

Nominal amount per equity share

* Number of preference shares

Total amount of preference shares

(in Rs.)

Nominal amount per preference share

(d)* Paid up capital of the company

(in Rs.)

Break up of Paid up capital

* Number of equity shares

Total amount of equity shares (in Rs.)

Nominal amount per equity share

* Number of preference shares

Total amount of preference shares

(in Rs.)

Nominal amount per preference share

7. (a) Date of passing the special resolution authorising issue under section 81

(DD/MM/YYYY)

(b) Service request number (SRN) of Form 23

8. *Whether complete list of allottees has been enclosed as attachment

☐ Yes ☐ No

In case No, then submit the details of all the allottees in a CD separately

9. *Whether copy of the valuation report of properties/ rights and shares has been enclosed as attachment

☐ Yes ☐ No**Attachments**

1. Copy of the resolution authorising the issue of bonus shares

2. *List of allottees (separate list for each allotment, refer instruction kit for format)

3. Copy of the resolution for the issue of shares at a discount with a copy of the order of the Central Government

4. Copy of the contract or agreement, if any, for allotment of share for consideration otherwise than in cash

5. Copy of the valuation report of properties/ rights and shares

6. Copy of Board or shareholders' resolution

7. Optional attachment(s) - if any

List of attachments

Verification

To the best of my knowledge and belief, the information given in this form and its attachments is correct and complete.

I have been authorised by the Board of directors' resolution number dated (DD/MM/YYYY) to sign and submit this form.**To be digitally signed by**

Managing Director or director or manager or secretary of the company

* Designation

* Director identification number of the director or Managing Director; or Income-tax permanent account number (Income-tax PAN) of the manager; or Membership number, if applicable or income-tax PAN of the secretary (secretary of a company who is not a member of ICSI, may quote his/ her income-tax PAN)

Certificate

It is hereby certified that I have verified the above particulars (including attachment(s)) from the records of

and found them to be true and correct. I further certify that all required attachment(s) have been completely attached to this form.

- ☐ Chartered accountant (in whole-time practice) or ☐ Cost accountant (in whole-time practice) or
☐ Company secretary (in whole-time practice)

* Whether associate or fellow ☐ Associate ☐ Fellow

* Membership number or certificate of practice number

Modify

Check Form

Prescrutiny

Submit

For office use only:

Affix filing details

eForm Service request number (SRN)

eForm filing date

(DD/MM/YYYY)

This e-Form is hereby registered

Digital signature of the authorising officer

Confirm submission

Date of signing

(DD/MM/YYYY)

[F.No.2/16/2010-C L-V]
RENUKA KUMAR, Jt. Secy.